

AU-1478

**B.Com. (Part-III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

- N.B. :-** (1) All questions are compulsory
(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain the concept of Insurance. 4
- (b) Explain the need of Insurance. 4
- (c) Explain the Principle of Utmost Good Faith. 3
- (d) Explain the "Insurance as a Social Security Tool". 3

OR

- (e) Explain the nature of Insurance. 4
- (f) Explain the current trends in Insurance services in India. 4
- (g) Explain the principle of Insurable Interest. 3
- (h) Write a brief history of Insurance. 3
2. (a) State the procedure for obtaining a licence of Insurance and explain the code of Conduct of an Agent. 14

OR

- (b) What is an Insurance Agent ? Explain the various functions of an Agent. 14
3. (a) Explain the importance of "Life Insurance". 4
- (b) Define Property Insurance. 4
- (c) Explain the "Crop Insurance." 3
- (d) What are the risks involved in "Fire Insurance" ? 3

OR

- (e) Explain the nature of "Marine Insurance." 4
- (f) Explain the scope of "Accident Insurance." 4
- (g) Explain the Importance of "Fire Insurance." 3
- (h) Explain the "Event Insurance." 3

4. (a) Explain the organizational set-up of Life Insurance Corporation. 14
- OR**
- (b) Explain the distribution channels of Insurance product in the market. 14
5. (a) Explain the objectives of IRDA. 4
- (b) State the regulation procedure of Private Insurance Company. 4
- (c) State the characteristics of General Insurance Business Act 1972. 3
- (d) State the functions of IRDA. 3
- OR**
- (c) Explain the nature of IRDA Act 2000. 4
- (f) Explain the need of privatization of Insurance companies. 4
- (g) Give the features of the Life Insurance Act 1956. 3
- (h) How are Private Insurance Companies controlled ? 3

AU-1478

B.Com. (Part-III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

नोट :- (1) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) विमाची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
- (ब) विमाची आवश्यकता स्पष्ट करा. 4
- (क) परमोच्च विश्वास तत्व स्पष्ट करा. 3
- (ड) "विमा एक सामाजिक सुरक्षिततेचे साधन आहे" स्पष्ट करा. 3
- किंवा
- (इ) विमाचे स्वरूप स्पष्ट करा. 4
- (फ) भारतातील विमा सेवामधील नवप्रवाह स्पष्ट करा. 4
- (ग) विमेयहित तत्व स्पष्ट करा. 3
- (ह) विमाचा संक्षिप्त इतिहास लिहा. 3
2. (अ) विमा परवाना प्राप्त करण्याची कार्यपद्धती सांगा आणि विमा अभिकर्त्याची आचार संहिता स्पष्ट करा. 14

किंवा

- (ब) विमा अभिकर्ता म्हणजे काय ? विमा अभिकर्त्याची विविध कार्ये स्पष्ट करा. 14
3. (अ) जीवन विमाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 4
- (ब) मालमत्ता विमाची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
- (क) 'पिक विमा' स्पष्ट करा. 3
- (ड) अग्नि विमामध्ये कोणत्या धोक्यांचा समावेश होतो ? 3

किंवा

(इ) सागरी विमाचे स्वरूप स्पष्ट करा.	4
(फ) अपघात विमाची व्याप्ति स्पष्ट करा.	4
(ग) अग्नि विमाचे महत्व स्पष्ट करा.	3
(ह) घटना विमा स्पष्ट करा.	3
4. (अ) जीवन विमा महानंडळाची संघटनात्मक संरचना स्पष्ट करा.	14
किंवा	
(ब) बाजारातील विमा उतरविलेल्या उत्पादनाच्या वितरणाचे मार्ग स्पष्ट करा.	14
5. (अ) IRDA ची उद्दिष्टे स्पष्ट करा.	4
(ब) खाजगी विमा कंपण्यांच्या नियमनाची प्रक्रिया स्पष्ट करा.	4
(क) सामान्य विमा व्यवसाय कायदा 1972 ची वैशिष्ट्ये सांगा.	3
(ड) IRDA चे कार्ये सांगा.	3
किंवा	
(इ) IRDA Act 2000 चे स्वरूप स्पष्ट करा.	4
(फ) विमा कंपण्यांच्या खाजगीकरणाची आवश्यकता स्पष्ट करा.	4
(ग) जीवन विमा अधिनियम 1956 ची वैशिष्ट्ये सांगा.	3
(ह) खाजगी विमा कंपण्यांचे नियंत्रण कसे केले जाते ?	3

AU-1478

B.Com. (Part-III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
(Banking and Insurance)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

नोट :- (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं ।

1. (अ) बीमा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए । 4
- (ब) बीमा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए । 4
- (क) परमोच्च विश्वास तत्व स्पष्ट कीजिये । 3
- (ड) "बीमा एक सामाजिक सुरक्षा साधन है ।" स्पष्ट कीजिए । 3

अथवा

- (इ) बीमा का स्वरूप स्पष्ट कीजिये । 4
- (फ) भारत में बीमा सेवाओं में नवप्रवाह स्पष्ट कीजिये । 4
- (ग) बीमेयहित तत्व स्पष्ट कीजिये । 3
- (ह) बीमा का इतिहास संक्षेप में लिखिये । 3
2. (अ) बीमा अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने की कार्यप्रणाली बतलाइये और बीमा अभिकर्ता की आचार संहिता स्पष्ट कीजिये । 14

अथवा

- (ब) बीमा अभिकर्ता याने क्या ? बीमा अभिकर्ता की विविध गतिविधियाँ स्पष्ट कीजिये । 14
3. (अ) जीवन बीमा का महत्व स्पष्ट कीजिये । 4
- (ब) मालमत्ता बीमा की संकल्पना को विषद कीजिये । 4
- (क) फसल बीमा (Crop Insurance) स्पष्ट कीजिये । 3
- (ड) अग्नि बीमा में कौन-कौन से खतरे समाविष्ट हैं ? 3

अथवा

- (इ) सागरी बीमा का स्वरूप स्पष्ट कीजिये । 4
 (फ) अपघात बीमा की व्याप्ति स्पष्ट कीजिये । 4
 (ग) अग्नि बीमा का महत्व स्पष्ट कीजिये । 3
 (ह) घटना बीमा स्पष्ट कीजिये । 3
 4. (अ) जीवन बीमा निगम की संघटनात्मक संरचना स्पष्ट कीजिये । 14

अथवा

- (ब) विपणी में बीमा निकाले हुये उत्पादन के वितरण के स्रोतों का स्पष्टीकरण कीजिये । 14
 5. (अ) IRDA के उद्देश्य स्पष्ट कीजिये । 4
 (ब) निजी बीमा कंपनियों की नियमन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये । 4
 (क) सामान्य बीमा व्यवसाय कानून 1972 की विशेषताएं बताइये । 3
 (ड) IRDA के कार्य को बताइये । 3

अथवा

- (इ) IRDA Act 2000 का स्वरूप स्पष्ट कीजिये । 4
 (फ) बीमा कंपनियों के निजीकरण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये । 4
 (ग) जीवन बीमा अधिनियम 1956 की विशेषताएं बताइये । 3
 (ह) निजी बीमा कंपनियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है ? 3